

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 54
No. 181]	DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939	[N.C.T.D. No. 54

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

dk; kly; jkT; puko vk; kx

OFFICE OF THE STATE ELECTION COMMISSION

vf/kl puk

NOTIFICATION

दिल्ली, 09 मई, 2017

Delhi, the 9th May, 2017

l ajk-pqvk-@fof/k@, Q4%248%@2017@1975.—दिल्ली नगर निगम, (पार्षदों का चुनाव) नियमावली 2012 के नियम 25 (2) के अनुसार निम्नलिखित को सर्व साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

SEC/LAW/F. 4(248)/2017/1975.—In pursuance of sub-rule(2) of Rule 25 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, the following is published for general information:-

प्रपत्र-7

FORM-7

चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची

List of Contesting Candidates

[नियम 24 देखें]

[See Rule 24]

उत्तरी दिल्ली नगर निगम वार्ड संख्या 016एन सराय पीपल थला (सामान्य) के लिए निर्वाचन

Election to the North Delhi Municipal Corporation from Ward No. & Name: 016-N SARAI PIPAL THALA (General)

क्रं. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आबंटित प्रतीक
Sr. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party affiliation	Symbol allotted
I	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी			
	Candidate at Recognised Political Parties at National Level			
1	मुकेश कुमार गोयल	459-17, धनपत कटरा, आजादपुर, दिल्ली-33	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
	MUKESH KUMAR GOEL	459-17, DHANPAT KATRA, AZADPUR, DELHI-33	INDIAN NATIONAL CONGRESS	HAND
2	मोहम्मद सरीफ	एच4/1226, ब्लॉक, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-33	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
	MOHD. SARIF	H4-1226, BLOCK, JAHANGIR PURI, DELHI-33	BAHUJAN SAMAJ PARTY	ELEPHANT
3	मंगत राम शर्मा	ए-9-54, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-33	भारतीय जनता पार्टी	कमल
	MANGAT RAM SHARMA	A-9-54, JAHANGIR PURI, DELHI-33	BHARATIYA JANATA PARTY	LOTUS
II	राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी			
	Candidate of State Parties			
1	राजीव कुमार बंसल	12-13, मेन रोड महिंद्रा पार्क, आदर्श नगर, दिल्ली-33	आम आदमी पार्टी	झाड़ू

	RAJEEV KUMAR BANSAL	12-13, MAIN ROAD MAHINDRA PARK, ADARSH NAGAR, DELHI-33	AAM AADMI PARTY	BROOM
2	हिमांशु सिंह	609-10, ब्लाक-आई, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-110033	समाजवादी पार्टी	साइकिल
	HIMANSHU SINGH	609-10, BLOCK-I, JAHANGIR PURI, DELHI-110033	SAMAJWADI PARTY	BICYCLE
III	निर्दलीय			
	Independent			
1	विजय कुमार अग्रवाल	डी-2/24, राजस्थली अपार्टमेंट, पीतमपुरा, दिल्ली-34	निर्दलीय	बैटरी टार्च
	VIJAY KUMAR AGGARWAL	D2/24, RAJASTHLI APPARTMENT, PITAMPURA, DELHI-34	INDEPENDENT	BATTERY TORCH
2	कुंती	एच-1/81, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-33	निर्दलीय	हॉकी और बॉल
	KUNTI	H-1/81, JAHANGIR PURI, DELHI-33	INDEPENDENT	HOCKEY AND BALL
3	डालचंद	623, एच-2 ब्लाक, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-33	निर्दलीय	मोमबत्तियाँ
	DAL CHAND	623, H2-BLOCK, JAHANGIR PURI, DELHI-33	INDEPENDENT	CANDLES
4	नुरूल अमींस	डी-250, एच-4 एन 30 झुग्गी (डी-ब्लाक), जहाँगीर पुरी, दिल्ली-33	निर्दलीय	सीटी
	NURUL AMINS	D-250, H4 N30 JHUGGI(D-BLOCK), JAHANGIR PURI, DELHI-33	INDEPENDENT	WHISTLE
5	बिंदु	ए-1760-61, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-33	निर्दलीय	चप्पलें

	BINDU	A-1760-61, JAHANGIR PURI, DELHI-33	INDEPENDENT	CHAPPALS
6	सिंधुजा भंडारी	बी-74एक्स, डी डी ए फ्लैट्स, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-33	निर्दलीय	प्लेट स्टैंड
	SINDHUJA BHANDARI	B-74X, DDA FLATS, JAHANGIR PURI, DELHI-33	INDEPENDENT	PLATES STAND
7	सतीश कुमार	बी-11, ब्लॉक-बी, रामगढ़ विलेज, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-33	निर्दलीय	सिलाई की मशीन
	SATISH KUMAR	B-11, BLOCK-B, RAMGARH VILLAGE, JAHANGIR PURI, DELHI-33	INDEPENDENT	SEWING MACHINE

स्थान: दिल्ली

Place: Delhi

दिनांक: 08-05-2017

Date: 08-05-2017

sd/-

निर्वाचन अधिकारी

Returning Officer

okMZ 16&, u

WARD 16-N

एस. के. श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

S. K. SRIVASTAVA, State Election commissioner